



प्रेस विज्ञप्ति

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021' का आयोजन

पुणे, 1 नवम्बर, 2021 : एक सप्ताह की अवधि तक जारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' दिनांक 1 नवंबर, 2021 को प्रधान कार्यालय, पुणे में संपन्न हुआ। महाराष्ट्र के अपर पुलिस महानिदेशक श्री अतुलचंद्र कुलकर्णी समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे। श्री ए. एस. राजीव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, श्री हेमन्त टम्टा और श्री ए. बी. विजयकुमार, कार्यपालक निदेशक सहित महाप्रबंधकगण भी समारोह में उपस्थित थे।

श्री ए. एस. राजीव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने अपने संबोधन में बैंक में सतर्कता संस्कृति की प्रवृत्ति विकसित करने पर जोर दिया। श्री ए. एस. राजीव ने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी को ईमानदारी व सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति सतर्क व प्रतिबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सहयोग प्रदान करना चाहिए। श्री राजीव ने संस्थान के उच्च इंटीग्रिटी इन्डेक्स के लिए स्टाफ सदस्यों का अभिनंदन किया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सतर्कता से संबंधित मामलों की न्यूनतम संख्या पर प्रसन्नता व्यक्त की। ऑनलाइन सत्यनिष्ठा शपथ लेने तथा सतर्कता जागरूकता के संबंध में बैंक के सभी ग्राहकों को 1.87 करोड़ एसएमएस भी भेजे गए। श्री राजीव ने न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ एंड-टू-एंड डिजिटाइजेशन प्रक्रिया सहित नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा सिस्टम एवं प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

श्री अतुलचंद्र कुलकर्णी, पुलिस अपर महानिदेशक, महाराष्ट्र ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्टाफ सदस्यों के बीच उपस्थित रहने पर प्रसन्नता व्यक्त की और पिछले दो वर्षों में बैंक के टर्नअराउंड और बेहतरीन प्रदर्शन पर सभी स्टाफ सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बैंक के सतर्कता मामलों की न्यूनतम संख्या निश्चित ही गर्व की बात है। श्री कुलकर्णी ने कहा कि हमें अपने कार्यों और आस्थाओं के प्रति विचारवान होना चाहिए तथा सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जिम्मेदारी की माननीय प्रधानमंत्री महोदय की संकल्पना के अनुरूप राष्ट्र की अपेक्षाओं की पूर्ति करें। उन्होंने यह भी सलाह दी कि राजकोषीय संपत्ति के संचलन में अत्यंत सावधानी बरतें। उन्होंने अपने इंटरएक्टिव सत्र में स्टाफ को प्रेरित करने के लिए अपने जीवन के कई रोचक और वास्तविक अनुभव साझा किए।

श्री हेमन्त टम्टा, कार्यपालक निदेशक ने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों से भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता है, ताकि उच्च नैतिक मूल्यों वाले आत्मनिर्भर समाज को विकसित किया जा सके। साथ ही, उन्होंने बैंक के कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए बैंक द्वारा की गई आईटी पहलों के बारे में भी जानकारी दी।

श्री ए. बी. विजयकुमार, कार्यपालक निदेशक ने अपने संबोधन में 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' के आयोजन के महत्व को बताया और इस बात का उल्लेख किया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र व्यवसाय वृद्धि के मानदंडों पर नंबर 1 है और इंटीग्रिटी इंडेक्स में तथा डिजिटल प्रयोग में भी नंबर 1 बनने के लिए प्रयासरत है। श्री विजयकुमार ने "स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता" थीम पर संदेश के प्रसार के लिए बैंक की शाखाओं और कार्यालयों द्वारा आयोजित आउटरीच गतिविधियों का उल्लेख किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के कर-कमलों से डिजिटल बैंकिंग चैनलों के सुरक्षित उपयोग पर जोर देने के लिए एक शिक्षाप्रद वीडियो भी जारी किया गया।



26 अक्टूबर, 2021 से प्रारंभ होकर सप्ताह भर चलने वाले समारोह के दौरान विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया यथा - प्रश्नोत्तरी और स्लोगन प्रतियोगिता, कार्यशालाएं, जागरूकता कार्यक्रम, कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिताएं, रैलियां, सतर्कता जागरूकता पर क्षेत्रीय भाषाओं में रेडियो जिंगल का प्रसारण, होर्डिंग्स और बैनर का प्रदर्शन, ग्राम सभा में जागरूकता कार्यक्रम, स्व- सहायता समूहों के साथ सम्मेलन आदि, कर्मचारियों और आम जनता के लिए ई-प्रतिज्ञा का आयोजन जिसमें देशभर के हमारे सभी 40 अंचल कार्यालयों ने सहभागिता की।

'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' समारोह के दौरान, सभी शाखाओं ने आउटरीच गतिविधि के रूप में 'ग्राहक सम्मेलन' का आयोजन किया। ऑनलाइन सत्यनिष्ठा शपथ लेने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट पर एक लिंक भी उपलब्ध कराया गया।

इस सतर्कता जागरूकता सप्ताह के समापन समारोह में प्रधान कार्यालय में उपस्थित बैंक के समस्त कार्यपालकों एवं कर्मचारियों ने सहभाग लिया तथा 40 अंचल कार्यालय वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। सुश्री मृदुल जोगळेकर, उप महाप्रबंधक के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।



फोटो कैप्शन: (बाएं से दाएं) श्री हेमन्त टम्टा (कार्यकारी निदेशक बैंक ऑफ महाराष्ट्र), श्री ए.एस. राजीव (एमडी और सीईओ बैंक ऑफ महाराष्ट्र), श्री अतुलचंद्र कुलकर्णी, (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र राज्य) और श्री ए.बी. विजयकुमार (कार्यकारी निदेशक बैंक ऑफ महाराष्ट्र)